



Class – VI Hindi II Language Notes October (2024 – 25)

PORTIONS:

1. पैरालंपिक खेल में भारत

2. खिलौना

पैरालंपिक खेल में भारत

शब्दार्थ word meaning

1. प्रदर्शन - दिखलाना demonstration
2. कौतूहल - जानने की इच्छा curiosity
3. आत्मविश्वास - अपने ऊपर भरोसा self-confidence
4. परचम - झंडा flag
5. प्रतिभा - हुनर talent
6. मान - सम्मान reputation
7. सुर्खियों - लेख आदि का शीर्षक headlines
8. आगोश - आलिंगन lapped
9. अनुभूति - अनुभव cognition
10. प्रतिस्पर्धा - मुकाबला competition
11. धड़ - कमर से गले, तक का भुजा रहित भाग Torso
12. विकलांगता - असमर्थता disability
13. दुर्घटना - बुरी घटना accident
14. दृढ़-इच्छाशक्ति - मज़बूत आंतरिक इच्छा strong will power
15. बदौलत - सहारे से, कारण से thanks to
16. प्रेरणास्रोत - जिनसे प्रेरणा मिलती है source of inspiration

1. सही विकल्प चुनिए Choose the correct option-

क. पहला पैरालंपिक कहाँ खेला गया था ?

रोम

ख. भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब अपने नाम किया?

1972

ग. देवेंद्र झाझरिया ने किस क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता था ?

जेवलिन थ्रो

घ. पैरालंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में खेले जाते हैं?

4 वर्षों के

2. सही (✓) या गलत (X) का चिह्न लगाइए Put right (✓) or wrong (X)-

क. मुरलीकांत ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था।

✓

ख. ओलंपिक खेलों में भारत 54 देशों में से आखिरी नंबर पर था।

X

ग. देवेंद्र झाझरिया को 2005 में अर्जुन और 2012 में पद्मश्री जैसे सम्मानों से नवाजा गया।

✓

घ. भारत ने 2021 के टोक्यो पैरालंपिक में पदक अपने नाम कर इतिहास रचाया।

✓

3. वाक्य पूरे कीजिए Complete the sentences-

क. शुरुआत में पैरालंपिक खेलों को "व्हीलचेयर" के नाम से जाना जाता था।

ख. साल 1972 में जर्मनी का स्विमिंग स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ था।

ग. दीपा लकवे से पीड़ित थीं।

घ. 2016 के रियो ओलंपिक में दीपा मलिक के साथ वरुण सिंह भाटी का नाम भी सुर्खियों में रहा।

4. इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए Answer these question-

• मौखिक (Oral)

क. पैरालंपिक खेलों की शुरुआत किसलिए की गई?

उ. पैरालंपिक खेलों की शुरुआत द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान दिव्यांग हुए सैनिकों को फिर से पटरी पर लौटाने के लिए की गई।

ख. शुरुआत में पैरालंपिक खेलों को किस नाम से जाना जाता था ?

उ. शुरुआत में पैरालंपिक खेलों को व्हीलचेयर गेम्स के नाम से जाना जाता था।

• लिखित (Written)

क. पैरालंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? इसमें कितने देशों ने भाग लिया था ?

उ. पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में रोम में हुई थी। इसमें करीब 23 देशों ने भाग लिया था।

ख. सन 2021 का टोक्यो पैरालंपिक यादगार क्यों है ?

उ. सन 2021 के टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने पाँच स्वर्ण, आठ रजत और छह कांस्य पदक जीते, इसलिए यह यादगार है।

ग. भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किसके माध्यम से प्राप्त किया था?

उ. भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक मुरलीकांत पेटकर के माध्यम से प्राप्त किया था। घ. दीपा मलिक कौन हैं? उन्होंने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को साबित किया?

उ. दीपा मलिक लकवे से पीड़ित थीं। वे इलाज से भी ठीक नहीं हो सकीं, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शॉटपुट थ्रो में अपनी प्रतिभा को साबित किया और रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया।

मूल्यपरक प्रश्न

· पैरालंपिक खिलाड़ियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है?

पैरालंपिक खिलाड़ियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के लिए दिव्यांगता कोई कमी नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमी हिम्मत हारना है। यदि मनुष्य हिम्मत नहीं हारता तो वह कठिन कार्य भी सरलता से कर सकता है।

1. नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को सही स्थान पर लिखिए -

Read the nouns and write under correct column.

देवेंद्र झाझरिया, राजस्थान, चटाई, हरियाली, चेन्नई, बेंगलुरु, भाग्यलक्ष्मी, पंखा, टोकरी, दीपा मलिक, गरमी, थैला, हैदराबाद, बुढ़ापा, मुरलीधर, हँसी

1.व्यक्ति - देवेंद्र झाझरिया, भाग्यलक्ष्मी, दीपा मलिक, मुरलीधर

2.भाव - हरियाली, गरमी, बुढ़ापा, हँसी

3.वस्तु - चटाई, पंखा, टोकरी, थैला, हैदराबाद

4.स्थान - राजस्थान, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद

2. वर्ण-विच्छेद कीजिए Separate the letters

1.प्रतिभा - प्+र्+अ+त्+इ+भ्+आ

2.प्रदर्शन - प्+र्+अ++अ+र्+श्+अ+न्+अ

3.स्वर्ण - स्+व्+अ+र्+ण्+अ

4.पदक प्+अ+द्+अ+क्+अ

5.ओलंपिक ओ+ल्+अं+प्+इ+क्+अ

3. शब्दों को जोड़कर लिखिए Combine the words and write -

1.आत्म + विश्वास - आत्मविश्वास

2.विश्व + युद्ध - विश्वयुद्ध

3.पद्म + श्री - पद्मश्री

4.प्रेरणा + स्रोत - प्रेरणास्रोत

5.इच्छा + शक्ति - इच्छाशक्ति

6.प्रति + योगिता - प्रतियोगिता

4. उचित सर्वनाम चुनकर वाक्य पूरे कीजिए-

Choose the suitable pronoun and complete the sentence.

क.ऐसा लगता है उनमें कोई शारीरिक कमी है ही नहीं।

ख. पैरालंपिक खेलों में हर देश का दिव्यांग खिलाड़ी "खुद को पूरी तरह झोंक देता है।

ग. आने वाले समय में उनका यह उत्साह भारत को बहुत आगे ले जाएगा।

घ. हमें अपने देश के दिव्यांग खिलाड़ियों पर गर्व है

5. सही अर्थों से मिलाइए Match the following-

1.Training - प्रशिक्षण

2.International - अंतरराष्ट्रीय

3.Will power - इच्छाशक्ति

4.Spirit - जोश

5.Trainer – प्रशिक्षक

6. वाक्य बनाइए Make Sentences-

क. खिलाड़ी - दीपा मलिक भारत की प्रमुख खिलाड़ी हैं।

ख. प्रशिक्षक - प्रशिक्षक का कार्य सही तरीके से प्रशिक्षित करना है।

ग. स्वर्ण पदक - पी.टी. उषा को दौड़ के लिए स्वर्ण पदक दिया गया।

घ. भारतीय - भारतीय खिलाड़ी मुरलीकांत ने एक नया इतिहास रचा।

ङ: प्रशिक्षण - सही प्रशिक्षण पाकर ही सफलता हासिल की जा सकती है।

खिलौना

शब्दार्थ word meaning

- 1.मचल - ज़िद पर आ जाना insist on
- 2.व्यथित - व्याकुल distressed
- 3.स्वर्ण निर्मित - सोने का बना हुआ made of gold
- 4.पथ - मार्ग way/path
- 5.बहकाती - भरमाती misrepresentation
- 6.बारंबार- बार-बार frequently
- 7.उपहार- तोहफ़ा gift
- 8.पुचकारना - प्यार जताना fondle

1. सही विकल्प चुनिए Choose the correct option-

क. बच्चा क्या लेने की जिद कर रहा है?

खिलौना

ख. गुड़डा किसका बना था ?

मिट्टी का

ग. राजपुत्र के रोने पर कौन दौड़ पड़े?

दास-दासियाँ

चित्र से संबंधित कविता की पंक्तियाँ लिखिए- Write lines of the poem related to the pictures-

"मैं तो वही खिलौना लूंगा" मचल गया शिशु राजकुमार वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। "वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सीने से।" दौड़ पड़े सब दास दासियाँ, राजपुत्र के रोने से।

मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था स्वर्णनिर्मित वह तो खेल इसी से लाल नहीं है, राजा के घर भी यह तो!

3. कविता याद कीजिए और सस्वर वाचन कीजिए Learn and recite the poem-

शिक्षार्थी कविता याद करें और शिक्षिका के मार्गदर्शन में सस्वर वाचन करें।

4. इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए Answer these question-

• मौखिक (Oral)

क. मिट्टी में खिलौना किसने फेंक दिया ?

उ. गरीब माँ के बेटे ने खिलौना मिट्टी में फेंक दिया।

ख. माँ ने बालक को मिट्टी के खिलौने से ही खेलने के लिए क्यों कहा ?

उ. माँ बालक को मिट्टी का ही खिलौना दिला सकती थी, इसलिए उसने उसे मिट्टी के खिलौने से ही खेलने के लिए कहा।

लिखित (Written)

क. माँ के व्यथित होने का क्या कारण था ?

उ. बालक राजकुमार के खिलौने को पाने की जिद कर रहा था। गरीब माँ उसे इतना मूल्यवान खिलौना दिलाने में असमर्थ थी, इसलिए वह दुखी हो गई थी।

ख. दीना का लाल किस खिलौने को लेने के लिए मचल रहा था?

दीना का लाल सोने के बने उस खिलौने को लेने के लिए मचल रहा था, जिससे राजकुमार खेल रहा था।

ग. सब दास-दासियाँ क्यों दौड़ पड़े ?

उ. मिट्टी के एक साधारण खिलौने को पाने के लिए राजा का बेटा रोने लगा। सब दास-दासियाँ उसे बहलाने के लिए दौड़ पड़े।

मूल्यपरक प्रश्न

+ अगर आपका साथी विद्यालय की फ़ीस नहीं दे सकता तो आप उसकी मदद किस प्रकार करेंगे?

मैं अपने अन्य मित्रों से इस विषय पर चर्चा करूँगा। हम सब प्रधानाचार्य जी से मिलकर समस्या का समाधान करने को विनती करेंगे। यदि उन्होंने कोई समाधान नहीं निकाला, तो हम सब मिलकर अपने साथी की आर्थिक मदद करेंगे।

1. इन श्रुतिसमभित्रार्थक शब्दों के सही अर्थ बॉक्स में से चुनकर लिखिए-

Choose and write the correct meaning of these homonyms from the box.

स्याही की बोतल, घर, आग, चतुर, हवा, वाहन चलाने वाला, भोज, नक्षत्र

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. अनिल - हवा | चालक - वाहन चलाने वाला |
| 2. अनल - आग | चालाक - चतुर |
| 3. ग्रह - नक्षत्र | गृह - घर |
| 4. दवात - स्याही की बोतल | दावत - भोज |

2. दिए गए शब्दों के दो-दो अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए-

- लाल - एक रंग - मेरी लाल कमीज फट गई।
बेटा - माँ ने अपने लाल को आशीर्वाद दिया।
- जगत - संसार - जगत में सज्जनों की कमी नहीं है।

कुएँ का चबूतरा - जगत पर सावधानी से बैठो।

3. तीर – बाण - शत्रु को देखते ही राजा ने तीर चला दिया।

किनारा - नदी के तीर हाथी बैठा है।

3 इन शब्दों के अर्थ हिंदी में तथा अपनी मातृभाषा में लिखिए –

Write the meaning of these words in Hindi, and in your mothertongue.

1. मिट्टी - soil

2. घर - Home

3. राजकुमार – Prince

4. खिलौना- Toy

• अपनी मातृभाषा में छात्र स्वयं लिखें।

4. प्रश्नसूचक शब्दों से वाक्य बनाइए Make sentences from question words-

क. किससे - आपने किससे ये रुपए उधार लिए?

ख. कहाँ - चिड़िया कहाँ रहती है?

ग. कैसे - चिड़िया घोंसला कैसे बनाती है?

घ. क्या - क्या आपने ताजमहल देखा है?

XXXXXXXXXXXXXXXXXX